

अध्याय - 11 | वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल

QUIZ-01

1. वह क्षेत्र जो दो त्रिज्याओं और चाप के बीच आता है, उसे क्या कहते हैं?

- | | |
|------------|------------|
| A. खंड | B. त्रिमुज |
| C. क्षेत्र | D. व्यास |
- (C)

व्याख्या: क्षेत्र दो त्रिज्याओं और चाप से घिरा भाग होता है।

2. यदि केंद्र कोण 90° और त्रिज्या 7 सेमी है, तो क्षेत्रफल होगा:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| A. 38.5 सेमी ² | B. 77 सेमी ² |
| C. 154 सेमी ² | D. 19.25 सेमी ² |
- (A)

व्याख्या: $(90/360) \times \pi \times 7^2 = 1/4 \times (22/7) \times 49 = 38.5 \text{ सेमी}^2$

3. खंड का क्षेत्रफल =

- | | |
|------------------------|------------------------|
| A. त्रिमुज - क्षेत्रफल | B. क्षेत्रफल + त्रिमुज |
| C. क्षेत्रफल - त्रिमुज | D. वृत्त - जीवा |
- (C)

व्याख्या: खंड = क्षेत्र - त्रिमुज

4. चाप की लंबाई का सूत्र क्या है?

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A. $(\theta / 180) \times \pi r$ | B. $(\theta / 360) \times 2\pi r$ |
| C. $(\theta / 180) \times 2\pi r$ | D. πr^2 |
- (B)

व्याख्या: चाप की लंबाई = $(\theta/360) \times 2\pi r$

5. त्रिज्या 14 सेमी और कोण 60° , तो चाप की लंबाई होगी:

- | | |
|---------------|--------------|
| A. 14.66 सेमी | B. 7.33 सेमी |
| C. 5.5 सेमी | D. 4.66 सेमी |
- (A)

व्याख्या: चाप = $(60/360) \times 2\pi \times 14 = 14.66 \text{ सेमी}$

6. क्षेत्र का सही मात्रक क्या है?

- | | |
|---------|----------------------|
| A. सेमी | B. सेमी ² |
| C. मीटर | D. डिग्री |
- (B)

व्याख्या: क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में मापा जाता है।

7. चतुर्थांश वृत्त का कौन-सा भाग होता है?

- | | |
|-------------|-------------|
| A. आधा | B. एक-तिहाई |
| C. एक-चौथाई | D. पूर्ण |
- (C)

व्याख्या: चतुर्थांश = $1/4$ भाग, कोण = 90°

8. क्षेत्र का सूत्र क्या है?

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| A. $(\theta/360) \times 2\pi r$ | B. $(\theta/360) \times \pi r^2$ |
| C. πr^2 | D. $2\pi r$ |
- (B)

व्याख्या: क्षेत्र का सूत्र = $(\theta/360) \times \pi r^2$

9. पूर्ण वृत्त में केंद्र कोण होता है:

- | | |
|----------------|----------------|
| A. 180° | B. 360° |
| C. 270° | D. 90° |
- (B)

व्याख्या: पूर्ण वृत्त का कोण = 360°

10. इस अध्याय में π का सामान्य मान क्या लिया गया है?

- | | |
|---------|---------|
| A. 3.12 | B. 3.14 |
| C. 3.00 | D. 3.16 |
- (B)

व्याख्या: इस अध्याय में $\pi = 3.14$ लिया गया है।